



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90]  
No. 90]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1979/वैशाख 7, 1901  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1979/ VAISAKHA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

## विस्तृत संज्ञा

राजस्व विभाग  
(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सं० प्रति अध्याय/ सां० सू० 37/79

साप्ताहिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979

का० सं० 602/79-डी० बी० के० :—सोमा शुल्क तथा केन्द्रीय  
उत्पादन शुल्क प्रतिअध्यायी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र,  
असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं०  
52/ का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय  
सरकार समय समय पर यथासंशोधित साप्ताहिक सूचना सं० प्रतिअध्यायी/  
सां० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्-  
द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्र० सं० 2628 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर  
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाया, धर्नातु :—

उप क्र०	माल का विवरण	प्रतिअध्यायी की दर
1	2	3
2628	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मख सं० 19-I के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक तथा मख सं० 19-II के अन्तर्गत आने	

1 2 3

वाले विद्युत करों पर  
निमित्त काशीबाकारी किये  
सूती फैब्रिक :—सूती सूत  
अन्तर्वस्तु, जिनमें कई भार  
में भाराधिक हो :—

- |  |  |
|--|--|
| (i) 20 सूत्रांक तक   | शून्य  |
| (ii) 20 सूत्रांक से अधिक परन्तु 25 सूत्रांक से अधिक नहीं।  | 1.72 पैसे (केवल एक दशमलव बहतर पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० घा० जिसमें से बटाइये 34.5 पैसे (केवल बीसोंस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलो ग्राम।                |
| (iii) 25 सूत्रांक से अधिक परन्तु 35 सूत्रांक से अधिक नहीं। | 11.5 पैसे (केवल प्यारह दशमलव पांच पैसे) प्रति किलो ग्राम जिसमें कोई 25 सूत्रांक से अधिक पर 4.6 पैसे (केवल चार दशमलव छः पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० घा०। |
| (iv) 35 सूत्रांक से अधिक परन्तु 45 सूत्रांक से अधिक नहीं।  | 57.5 पैसे (केवल सत्तर दशमलव पांच पैसे) प्रति कि० घा० जिसमें कोई 35   |

1	2	3
		सूत्रांक से अधिक पर 9.2 पैसे (केवल नौ दशमलव दो पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० ग्रा०।
(v) 45 सूत्रांक से अधिक परन्तु 55 सूत्रांक से अधिक नहीं।	149.5 पैसे (केवल एकसौ उनचास दशमलव पांच पैसे) प्रति किलो ग्राम जिसमें जोड़ें. 45 सूत्रांक से अधिक पर 16.1 पैसे (केवल सोलह दशमलव एक पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलो ग्राम।	
(vi) 55 सूत्रांक से अधिक	6.3 पैसे (केवल छः दशमलव तीन पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० ग्रा० जिसमें से घटा-इये 34.5 पैसे (केवल चौतीस दशमलव पांच पैसे) प्रति कि० ग्रा०।	

2. उप क्रम सं० 2628 के अन्तर्गत वर्तमान परन्तुक अपरिवर्तनीय रहेंगे।

3. यह सार्वजनिक सूचना 4 जनवरी, 1979 से लागू हुई मानी जायेगी।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**Department of Revenue**  
**(Indirect Taxes Division)**  
**NO. DRAWBACK/PN-37/79.**  
**PUBLIC NOTICES**

New Delhi, the 27th April, 1979

**F. No. 602/1/79-DBK.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial No. 2628 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub- S. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2628	Cotton fabrics falling under item No. 19-I and embrodered cotton fabrics manufactured on powerloom falling under item 19-II of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944— Cotton yarn content in which cotton predominates in weight—	
	(i) of counts upto 20	Nil
	(ii) of counts exceeding 20 but not exceeding 25.	Paise 1.72 (Paise one point seventy two only) per count per kg. less paise 34.5 (Paise thirty four point five only) per kg.

1	2	3
(iii) of counts exceeding 25 but not exceeding 35.	Paise 11.5 (Paise eleven point five only) per kg. plus paise 4.6 (Paise four point six only) per count per kg. exceeding 25 counts.	
(iv) of counts exceeding 35 but not exceeding 45.	Paise 57.5 (Paise fifty seven point five only) per kg. plus Paise 9.2 (Paise nine point two only) per count per kg. exceeding 35 counts.	
(v) of counts exceeding 45 but not exceeding 55.	Paise 149.5 (Paise one hundred forty nine point five only) per kg. plus Paise 16.1 (Paise sixteen point one only) per count per kg. exceeding 45 counts.	
(vi) of counts exceeding 55.	Paise 6.3 (Paise six point three only) per count per kg. less Paise 34.5 (Paise thirty four point five) per kg.	

2. The existing provisos under sub-serial No. 2628 remain unchanged.

3. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 4th day of January, 1979.

सं० प्रतिप्रवायगी/सा० सू० 38/79

फा० सं० 602/1/79-डी० बी० के० :—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रवायगी नियमावली, 1971 ( भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ० ) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रवायगी/ सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 4102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप क्र०	माल का विवरण	प्रतिप्रवायगी की दर सं०
4102	ढलवां से भिन्न, हस्तात से 326/- रु० ( केवल तीन सौ निमित्त कृषि मोजार और छन्नीस रुपये) प्रति मी० उनके पुर्जे, जो अन्यथा विनि- दित नहीं हों।	

**NO. DRAWBACK/PN-38/79**

**F. No. 602/1/79-DBK.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For Sub-serial No. 4102 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub- Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
4102	Agricultural implements and parts thereof not otherwise specified made of steel, other than cast.	Rs. 326/- (Rupees Three hundred and twenty-six only) per tonne.

सं० प्रतिव्यापनी/ सा० सू० 39/79

मुद्रिपत्र

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979

फा० सं० 602/1/79-डी० पी० के० :—भारत के राजपत्र प्रसाधारण, के भाग (1), खण्ड (1) में प्रकाशित सा० सू० सं० प्र० घ० / सा० सू० 23/79 में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 4804 के सामने 'प्रति व्यापनी की दर' स्तंभ में उप मंत्र (3) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायगा :—

"(4) ऑटोमोबाइल बैटरियां"

महेश कुमार, सचिव

NO. DRAWBACK/PN-39/79.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th April, 1979

F. No. 602/1/79-DBK.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-23/79, published in Part (1), Section (1) of the gazette of India, Extra-ordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein :—

In the Column 'Description of goods' against Sub-Serial No. 4804, after sub-item (3), the following shall be added :—

"(4) Automobile batteries."

MAHESH KUMAR, Under Secy.

